

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 560]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 14, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

क्र.-बी-11-3-2014-चौदह-2.—भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13017-06-2013-Credit II(pt), दिनांक 26 जून 2014 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम रबी वर्ष 2014-15 के लिए संलग्न सूची के अनुसार तहसील स्तर पर उनके समक्ष दशाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 मौसम रबी हेतु प्रस्तावित (क्षेत्र.) तहसीलें

फसल-अलसी

स. क्र.	जिला	तहसील	क्षेत्रफल (हे. में.) पूर्वानुमान वर्ष 2013-14
(1)	(2)	(3)	(4)
1	जबलपुर	1 कुण्डम	540
2	डिण्डौरी	2 शाहपुरा	4470
		3 डिण्डौरी	1700
3	बालाघाट	4 लांजी	1012
		5 खैरलांजी	530
		6 वारासिवनी	1261
		7 कटंगी	990
		8 किरनापुर	1062
		9 लालबर्गा	1420
		10 बालाघाट	729

(1)	(2)	(3)	(4)
4	सिवनी	11 सिवनी	1121
		12 केवलारी	1017
		13 लखनादौन	552
		14 बरघाट	3842
		15 छनोरा	510
		16 घन्सोर	1243
5	कटनी	17 बड़वारा	712
6	मण्डला	18 नैनपुर	1005
		19 बिछिया	2091
		20 निवास	630
		21 घुघरी	1105
7	उमरिया	22 बांधवगढ़	1020
		23 नरौजाबाद	965
8	रीवा	24 जवा	1004
		25 महुंगंज	1159
		26 हनुमना	3843
		27 त्योथर	1499
		28 सिरमोर	1282
		29 नई गड़ी	980
		30 सेमरिया	587
		31 मनगवां	724
9	सतना	32 रामनगर	741
10	शहडोल	33 सुहागपुर	610
		34 ब्योहारी	755
		35 जैतपुर	985
		36 जयसिंहनगर	810
11	अनूपपुर	37 पुष्पराजगढ़	3098
12	सीधी	38 गोपदबनास	2260
		39 सिहांवल	600
		40 मझोली	2000
		41 रामपुर नैकिन	2060
13	सिंगरौली	42 देवसर	2562
		43 चितरंगी	3070
		44 सिंगरौली	2068
14	छतरपुर	45 लोण्डी	1065
		46 गोरीहार	4740
		47 महाराजपुर	642
		48 चंदला	1186
		49 बक्सवाह	572
15	रायसेन	50 बेगमगंज	987
16	बैतूल	51 मुलताई	610
17	रतलाम	52 पिपलोदा	532
18	मन्दासौर	53 बालोदा	1135